

Neh

Chapter 11

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

מִן- में-से	אֶחָד एक	אֶלֶּה־בִּיא लाने-के-लिए	גִּדְלוֹת चिट्ठियाँ	הַפִּילֹ डालीं	הָעָם लोगोंने	וּשְׁאָר और-शेष	בִּירוּשָׁלַם यरूशलेम-में	הָעָם लोगों-के	שָׂרִי- प्रधान	וַיֵּשְׁבוּ और-बसे	1
	H0259	H0935	H1486	H5307		H7605	H3389		H8269	H3427	
			בְּעָרִים: नगरों-में	הַיְדוּת नौ-भाग	וַתִּשַׁע और	הַקָּדָשׁ पवित्र	עִיר नगर	בִּירוּשָׁלַם यरूशलेम-में	לְשֹׁבְתָהּ बसने-के-लिए	הָעִירָה दस	
			H3027	H8672	H6944			H3389	H3427	H6235	

देखो अब इस्राएल के लोगों के मुखिया यरूशलेम में बस गए। इस्राएल के दूसरे लोगों को यह निश्चित करना था कि नगर में और कौन लोग बसेंगे। इसलिए उन्होंने पास फेंके जिसके अनुसार हर दस व्यक्तियों में से एक को यरूशलेम के पवित्र नगर में रहना था और दूसरे नौ व्यक्तियों को अपने-अपने मूल नगरों में बसना था।

פ- -	בִּירוּשָׁלַם: यरूशलेम-में	לְשֹׁבְתָהּ बसने-के-लिए	הַמְתַּדְבְּרִים जो-स्वेच्छा-से-आगे-आए	הָאֲנָשִׁים पुरुषों-को	לְכֹל सब	הָעָם लोगोंने	וַיְבָרְכוּ और-आशीर्वाद-दिया	2
	H3389	H3427	H5068	H0376	H3605		H1288	

यरूशलेम में रहने के लिए कुछ लोगों ने स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किया। अपने आप को स्वयं प्रस्तुत करने के लिए दूसरे व्यक्तियों ने उन्हें धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद दिये।

אִישׁ हर-एक	וַיֵּשְׁבוּ बसे	יְהוּדָה यहूदाह-के	וּבְעָרָי परन्तु-नगरों-में	בִּירוּשָׁלַם यरूशलेम-में	וַיֵּשְׁבוּ बसे	אֶשְׁרָ जो	הַמְדִינָה प्रांत-के	רָאשֵׁי प्रधान	וְאֵלֶּה और-ये-हैं	3
H0376	H3427	H3063		H3389	H3427		H4082		H0428	
שְׁלֵמָן: सुलैमान-के	עֲבָדָי दासों-के	וּבְנֵי और-वंशज	וְהַנְּתִינִים और-नतीनीम	וְהַלְוִיִּם और-लेवीय	הַכֹּהֲנִים याजक	יִשְׂרָאֵל इस्राएल	בְּעָרֵיהֶם अपने-नगरों-में	בְּאֶחָדָם अपनी-भूमि-में		
H8010	H5650		H5411	H3881	H3548	H3478		H0272		

ये प्रांतों के वे मुखिया हैं जो यरूशलेम में बस गये। (कुछ इस्राएल के निवासी कुछ याजक लेवीवंशी मन्दिर के सेवक और सुलैमान के उन सेवकों के वंशज अलग-अलग नगरों में अपनी निजी धरती पर यहूदा में रहा करते थे,

עֲתָיָה अतायाह	יְהוּדָה यहूदाह-के	מְבִנֵי पुत्रों-में-से	בְּנֵימִן बिन्यामीन-के	וּמְבִנֵי और-पुत्रों-में-से	יְהוּדָה यहूदाह-के	מְבִנֵי पुत्रों-में-से	וַיֵּשְׁבוּ बसे	בִּירוּשָׁלַם और-यरूशलेम-में	4	
H6265	H3063		H1144		H3063		H3427	H3389		
מַהֲלֵלָאֵל महललेल-का	בֶּן- पुत्र	שַׁפְּטָיָה शपत्याह-का	בֶּן- पुत्र	אֲמֵרְיָה अमर्याह-का	בֶּן- पुत्र	זַכְרְיָה जकर्याह-का	בֶּן- पुत्र	עֲזַיְיָה उज्जियाह-का	בֶּן- पुत्र	
H4111		H8203		H0568				H5818		

מְבִנֵי-
पुत्रों-में-से
פֶּרֶס:
पेरस-के
[H6557](#)

तथा यहूदा और बिन्यामीन परिवारों के दूसरे लोग यरूशलेम में ही रह रहे थे। यहूदा के वे वंशज जो यरूशलेम में बस गये थे, वे ये हैं: उज्जियाह का पुत्र अतायाह (उज्जियाह जकर्याह का पुत्र था, जकर्याह अमर्याह का पुत्र था, और अमर्याह, शपत्याह का पुत्र था। शपत्याह महललेल का पुत्र था और महललेल पेरस का वंशज था।

בֶּן- पुत्र	עֲדָיָה अदायाह-का	בֶּן- पुत्र	חַזְיָה हजायाह-का	בֶּן- पुत्र	כָּל-חֹזֶה कोल-होजेह-का	בֶּן- पुत्र	בָּרוּךְ बारूख-का	בֶּן- पुत्र	וּמַעֲשֵׂיָה और-माअसेयाह	5
	H5718		H2382		H3626		H1263		H4641	
				הַשְּׁלִנִי: शीलोनी-का	בֶּן- पुत्र	זַכְרְיָה जकर्याह-का	בֶּן- पुत्र	יְוָרִיב योयारीब-का		
				H8023				H3114		

12 וְאֶחָיוֹם אֲחִיהֶם עָשִׂי הַמְּלָאכָה לְבֵית שְׂמֹנָה מֵאוֹת עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם וְעָרִיָּה בֶן- 12
 और-उनके-भाई जी-करते-थे कार्य भवन-का आठ सौ बाईस और-अदायाह पुत्र
[H4399](#) [H8083](#) [H3967](#) [H6242](#) [H8147](#) [H5718](#) [H0251](#)

יְרוּחָם בֶּן- פְּלִלְיָה בֶן- אֲמִצִּי בֶן- זְכַרְיָה בֶן- פִּשְׁחָוֶר בֶּן- 13
 यरोहाम-का पुत्र पलल्याह-का पुत्र अस्सी-का पुत्र जकर्याह-का पुत्र पशहूर-का पुत्र
[H3395](#) [H6421](#) [H0557](#) [H0564](#) [H6583](#)

מַלְכִיּוּחָם :
 मल्किय्याह-का
[H4441](#)

उनके भाईयों के आठ सौ बाइस पुरुष, जो भवन के लिये काम किया करते थे। तथा यरोहाम का पुत्र अदायाह। (यरोहाम, जो अस्सी के पुत्र पलल्याह का पुत्र था। अस्सी के पिता का नाम जकर्याह और दादा का नाम पशहूर था। पशहूर जो मल्किय्याह का पुत्र था)

13 וְאֶחָיוֹם וְרָאשֵׁי לְאֻבוֹת מֵאֲתָיִם אַרְבָּעִים וּשְׁנַיִם וְעֶמְשָׁוִי בֶן- עֲזַרְאֵל 13
 और-उसके-भाई प्रधान पितों-के-घरानों-के दो-सौ चालीस और-दो और-अमशै अजरएल-का पुत्र
[H0251](#) [H0001](#) [H3967](#) [H0705](#) [H8147](#) [H6023](#) [H5832](#)

בֶּן- אֲחָוִי בֶן- מְשִׁלְמוֹת בֶּן- אִמֶּר :
 अहजै-का पुत्र मशिल्लेमोत-का पुत्र इमर-का पुत्र
[H0273](#) [H4919](#) [H0564](#)

अदायाह और उसके साथियों की संख्या दो सौ बयालीस थी। ये लोग अपने—अपने परिवारों के मुखिया थे। अमशै जो अजरएल का पुत्र था। (अजरएल अहजै का पुत्र था। अहजै का पिता मशिल्लेमोत था। जो इमर का पुत्र था),

14 וְאֶחָיוֹם וְגִבּוֹרֵי חֵיל מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׂמֹנָה וּפְקִידֵי עֲלִיָּהם זְבַדְיָאֵל בֶּן- 14
 और-उनके-भाई शूरवीर पराक्रमी एक-सौ अष्टाईस और-आठ और-अधिकारी-था जब्दीएल पुत्र
[H0251](#) [H1368](#) [H2428](#) [H3967](#) [H6242](#) [H8083](#) [H6496](#) [H2068](#)

הַגְּדוֹלִים :
 बड़ों-में-से-एक-का
 -

अमशै और उसके साथी वीर योद्धा थे। वे संख्या में एक सौ चौबीस थे। (हग्गदोलीन का पुत्र जब्दीएल उनका अधिकारी हुआ करता था।)

15 וּמִן- הַלְוִיִּם שְׁמַעְיָה בֶן- חֲשׂוּב בֶּן- עֲזַרְיָקָם בֶּן- חֲשַׁבְיָה בֶן- 15
 और लेवीयों-में-से शमैयाह पुत्र हश्शूब-का पुत्र अज्रीकाम-का पुत्र हशब्याह-का पुत्र
[H3881](#) [H8098](#) [H2815](#) [H5840](#) [H2811](#)

בִּזְוִי :
 बुन्नी-का
[H1138](#)

ये वे लेवीवंशी हैं, जो यरूशलेम में जा बसे थे: शमायाह जो हश्शूब का पुत्र था (हश्शूब अज्रीकाम का पुत्र और हशब्याह का पोता था। हशब्याह बुन्नी का पुत्र था)।

16 וְשַׁבְּתַי וַיּוֹזְבָד עַל- הַמְּלָאכָה הַחִיצוֹנָה לְבֵית הָאֱלֹהִים מְרָאשֵׁי הַלְוִיִּם : 16
 और-शब्बतै और-योजाबाद पर निगरानी बाहरी-के बाहरी-के भवन-के परमेश्वर-के प्रधानों-में-से लेवीयों-के
[H7678](#) [H3107](#) [H4399](#) [H2435](#) [H0430](#) [H3881](#)

शब्बत और योजाबाद (ये दो व्यक्ति लेवीवंशियों के मुखिया थे। परमेश्वर के भवन के बाहरी कामों के ये अधिकारी थे)।

17	וּמַתְנַיָּה और-मत्तन्याह H4983	בֶּן-מִיכָה मीकाह-का पुत्र H4318	בֶּן-זַבְדִּי जब्दी-का पुत्र H2067	אֶסָפָה आसाफ-का H0623	רֹאשׁ प्रधान H8462	הַתְּחִלָּה शुरू-करता-था H3034	יְהוֹרָה धन्यवाद H3034
	לְתַפְלִיחַ प्रार्थना-के-साथ H8605	וּבְקִבְיָה और-बक्बुक्याह H1229	מְשֻׁנָּה दूसरा H4932	מֵאֲחֵיו अपने-भाइयों-में H0251	וְעַבְדָּא और-अब्दा H5653	בֶּן-שָׁמוּעַ शम्मुआ-का पुत्र H8051	בֶּן-גָּלָל गालाल-का पुत्र H1559
	[יְדִיתוֹן] (יְדִיתוֹן): यदीतून-का H3038	יְדִיתוֹן यदूतून H3038					

मत्तन्याह, (मत्तन्याह मीका का पुत्र था और मीका जब्दी का, तथा जब्दी आसाप का।) आसाप गायक मण्डली का निर्देशक था। आसाप स्तुति गीत और प्रार्थनाओं के गायन में लोगों की अगुवाई किया करता था बकबुकियाह (बकबुकियाह अपने भाइयों के ऊपर दूसरे दर्जे का अधिकारी था)। और शम्मु का पुत्र अब्दा (शम्मु यदूतून का पोता और गालाल का पुत्र था)।

18	כָּל-הַלְוִיִּם सब लेवीय-थे H3605	בְּעִיר-לְוִי नगर-में H3881	הַקָּדֵשׁ पवित्र H6944	מֵאֲתֵי दो-सौ H3967	שְׁמֹנִים अस्सी H8084	וְאַרְבָּעָה: और-चार H0702	פ -
----	---	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----

इस प्रकार दो सौ चौरासी लेवीवंशी यरूशलेम के पवित्र नगर में जा बसे थे।

19	וְהַשְּׁוֹעָרִים और-द्वारपाल-थे H7778	עַקְבֹּב अक्कूब H6126	טַלְמוֹן तल्मोन H2929	וְאֶחָיָה और-उनके-भाई H0251	הַשְּׁמָרִים जो-पहरा-करते-थे H8104	בְּשַׁעְרֵי फाटकों-पर H8179	מֵאֶחָ एक-सौ H3967	שְׁבַעִים सत्तर H7657	וּשְׁנָיִם: और-दो H8147
----	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

जो द्वारपाल यरूशलेम चले गये थे, उनके नाम ये थे: अक्कूब, तलमोन, और उनके साथी। ये लोग नगर—द्वारों पर नजर रखते हुए उनकी रखवाली किया करते थे। ये संख्या में एक सौ बहत्तर थे।

20	וְשָׂאָר और-शेष H7605	יִשְׂרָאֵל इसाएल H3478	הַכֹּהֲנִים याजक H3548	הַלְוִיִּם लेवीय H3881	בְּכָל- सब H3605	עָרֵי नगरों-में-थे H3063	יְהוּדָה यहूदाह-के H3063	אֶחָד हर-एक H0376	בְּנַחֲלֹתָ: अपनी-मीरास-में H5159
----	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

इसाएल के दूसरे लोग, अन्य याजक और लेवीवंशी यहूदा के सभी नगरों में रहने लगे। हर कोई व्यक्ति उस धरती पर रहा करता था जो उनके पूर्वजों की थी।

21	וְהַנְּתִינִים परन्तु-नतीनीम H5411	יֹשְׁבֵי बसते-थे H3427	בְּעֶפְלָי ओफेल-में H6077	וְצִיְחָ और-सीहा H6727	וּגִשְׁפָּא और-गिशपा H1658	עַל- थे-पर H5411	הַנְּתִינִים: नतीनीम H5411	פ -
----	--	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	-----

मन्दिर में सेवा आराधना करने वाले लोग ओपेल की पहाड़ी पर बस गये। सीहा और गिशपा मन्दिर के उन सेवकों के मुखिया थे।

22	וּפְקִיד और-अधिकारी H6496	הַלְוִיִּם लेवीयों-का H3881	בְּיְרוּשָׁלַם यरूशलेम-में H3389	עֲזִי उज्जी-था H5813	בֶּן-בָּנִי बानी-का पुत्र H1137	בֶּן-חֲשַׁבְיָה हशब्याह-का पुत्र H2811	בֶּן-מַתְנַיָּה मत्तन्याह-का पुत्र H4983
----	---------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	--	--

בֶּן- पुत्र H4316	מִיכָה मीकाह-का H4316	מִבְּנֵי पुत्रों-में-से H4316	אֶסָפָה आसाफ-के H0623	הַמְּשָׁרָתִים गायक H7891	לְנֹגַד भारी-थे H5048	מְלֹאכֶת सेवा-के H4399	בֵּית- भवन-की H4399	הָאֱלֹהִים: परमेश्वर-के H0430
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

यरूशलेम में लेवीवंशियों के ऊपर उज्जी को अधिकारी बनाया गया। उज्जी बानी का पुत्र था। (बानी, मीका का पड़पोता, मत्तन्याह का पोता, और हशब्याह का पुत्र था)। उज्जी आसाप का वंशज था। आसाप के वंशज वे गायक थे जिन पर परमेश्वर के मन्दिर की सेवा का भार था।

23	כִּי- — H4687	מִצְוַת — H4428	הַמִּצְוָה — H4428	עֲלֵיהֶם — H0548	וְאִמְנָה — H0548	עַל- होना-चाहिए-था H7891	הַמְּשָׁרָתִים गायकों-को H7891	דְּבַר- भाग H1697	יּוֹם दिन H3117	בְּיוֹמוֹ: प्रति-दिन H3117
----	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------

ये गायक राजा की आज्ञाओं का पालन किया करते थे। राजा की आज्ञाएँ इन गायकों को बताती थीं कि प्रतिदिन क्या करना है।

לָל- सब H3605	הַמֶּלֶךְ राजा-का H4428	לִיר सहायक-था H3027	יְהוּדָה यहूदाह-के H3063	בֶן पुत्र H2226	זֶרַח जेरह-के H2226	מִבְנֵי- पुत्रों-में-से H4898	מְשִׁיבָאֵל मशजबेल-का H4898	בֶן पुत्र H6611	וּפְתָחָהּ और-पतह्याह H6611	24
-------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	----

לָעָם :
लोगों-के-विषय-में
דָבָר :
मामलों-में
[H1697](#)

वह व्यक्ति जो राजा को लोगों से सम्बन्धित मामलों में सलाह दिया करता था वह था पतहियाह (पकहियाह जेरह के वंशज मशजबेल का पुत्र था और जेरह यहूदा का पुत्र था।)

וּבְנֵיהָ और-उसके-गाँवों-में H1323	הָאָרְבַּעְבָּקָרִית किर्यत-अर्बा-में H7153	יִשְׁבּוּ बसे H3427	יְהוּדָה यहूदाह-के H3063	מִבְנֵי पुत्रों-में-से H3343	בְּשָׂרָתָם उनके-खेतों-सहित H1323	הַחֲצָרִים गाँवों H1769	וְאֵל- और-जो-रहा H0413	25
--	---	---	--	--	---	---	--	----

וּבְנֵיהָ :
और-उसके-गाँवों-में
וּבְיַקְבְּצָאֵל :
और-यकब्सेल-में
וּבְנֵיהָ :
और-उसके-गाँवों-में
וּבְדִבּוֹן :
और-दीबोन-में
[H3343](#) [H1323](#) [H1769](#)

यहूदा के लोग इन कस्बों में बस गये: किर्यतर्बा और उसके आस—पास के छोटे—छोटे गाँव, दिबोन और उसके आसपास के छोटे—छोटे गाँव, यकब्सेल और उसके आसपास के छोटे—छोटे गाँव,

כָּלֵט : बेत-पेलेत-में H1046	וּבְבֵית और H1046	וּבְמִלְדָּה और-मोलादाह-में H4137	וּבִישׁוּעַ और-येशूआ-में H3442	26
--	---	---	--	----

तथा येशू, मोलादा, बेतपेलेत,

וּבְנֵיהָ : और-उसके-गाँवों-में H1323	שְׁבַע וּבְבָאָר और-बेरशेबा-में H0884	שׁוּעָל וּבְחָצָר और-हसर-शूआल-में H2705	27
--	---	---	----

हसर्यूआल बेरशेबा तथा उस के आसपास के छोटे—छोटे गाँव

וּבְנֵיהָ : और-उसके-गाँवों-में H1323	וּבְמִכְנָה और-मकोनाह-में H4368	וּבְצִकְלָג और-सिकलग-में H6860	28
--	---	--	----

और सिकलग, मकोना और उसके आसपास के छोटे गाँव।

וּבְיִרְמוּת : और-यर्मूत-में H3412	וּבְצָרָעָה और-सोराह-में H6881	רִמְמוֹן וּבְעֵין और-एन-रिम्मोन-में H5884	29
--	--	---	----

एन्निम्मोन. सोरा, यर्मूत,

וּבְנֵיהָ और-वे-बसे H2583	וּבְנֵיהָ और-उसके-गाँवों-में H1323	עֲזָקָה अजेकाह-में H5825	וּשְׂדֵי תִיָּה और-उसके-खेतों-में H3923	לְכִישׁ लाखीश-में H3923	וּחֲצָרִיָּהם और-उनके-गाँवों-में H5725	עַד לָם अदुल्लाम-में H5725	זָנָח जानोह-में H2182	30
---	--	--	---	---	--	--	---	----

הַנָּחַם :
हिन्नोम-तक
נִיאָ :
घाटी
עָרָ :
लेकर
מִבְּאֵר שֶׁבַע :
बेरशेबा-से
[H2011](#) [H1516](#) [H5704](#) [H0884](#)

जानोह और अदुल्लाम तथा उसके आसपास के छोटे छोटे गाँव। लाकीश और उसके आसपास के खेतों, अजेका और उसके आसपास के छोटे—छोटे गाँव। इस प्रकार बेरशेबा से लेकर हिन्नोम की तराई तक के इलाके में यहूदा के लोग रहने लगे।

וּבְנֵיהָ : और-उसके-गाँवों-में H1323	וּבֵית-אֵל और-बैतएल-में H1008	וְעֵינָה और-अय्याह-में H5857	מִכְמָשׁ मिख्माश-में-बसे H4363	מְגִבָּע गेबा-से H1387	בִּנְיָמִין बिन्यामीन-के H1144	וּבְנֵי और-पुत्र	31
--	---	--	--	--	--	---------------------	----

जिन स्थानों में बिन्यामीन के वंशज रहने लगे थे, वे ये थे: गेबा मिक्मश, अय्या, बैतेल, ओर उसके आस—पास के छोटे—छोटे गाँव,

עֲנָנִיהַ : 32
अनन्याह-में नोब-में अनातोत-में
[H6055](#) [H5011](#) [H6068](#)

| अनातोत, नोब, अनन्याह

הַצֹּר : 33
गित्तैम-में रामाह-में हासोर-में
[H1664](#) [H7414](#) [H2674](#)

| हासोर रामा, गित्तैम,

נְבֻלַּט : 34
नबल्लात-में सबोईम-में हादीद-में
[H5041](#) [H6650](#) [H2307](#)

| हादीद, सबोईम, नबल्लात,

הַחֲרָשִׁים : 35
और-कारीगरों-की-घाटी-में और-ओनो-में लोद-में
[H0207](#) [H3850](#)

| लोद, ओनो तथा कारीगरों की तराई।

פְּ - לְבִנְיָמִין : 36
- बिन्यामीन-में-थे यहूदाह-के भाग लेवीयों-के और-कुछ
[H1144](#) [H3063](#) [H4256](#) [H3881](#)

| लेवीवंशियों के कुछ समुदाय जो यहूदा में रहा करते थे बिन्यामीन की धरती पर बस गये थे।